

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अप्रैल 2014—चैत्र 21, शक 1936

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 5 अप्रैल 2014

शुद्धिपत्र

क्र. 857-जि.श.वि.अ.-2014.—नगर परिषद् नागौद, जिला सतना के वार्ड परिसीमन की अधिसूचना (अधिसूचना क्रमांक 758 जि.श.वि.अ. सतना, दिनांक 4 मार्च 2014) जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-2 में दिनांक 21 मार्च 2014 को प्रकाशित हुआ है, में नगर परिषद् नामली, जिला सतना के स्थान पर नगर परिषद् नागौद, जिला सतना पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर.